

प्रेस विज्ञप्ति

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ रणनीतिक को-लेंडिंग पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए

पुणे, 28 दिसंबर, 2021: बैंक ऑफ महाराष्ट्र देश का सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है। बैंक ने एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक रणनीतिक को-लेंडिंग पार्टनरशिप की है। को-लेंडिंग में एमएसएमई उधारकर्ताओं को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रदान करने पर विचार किया गया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए लागू दिशानिर्देशों के साथ ही लागू कानून (कानूनों) के अनुपालन के अध्यक्षीन है। इस को-लेंडिंग व्यवस्था में दोनों संस्थाओं की भागीदारी के परिणामस्वरूप बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के ऋण पोर्टफोलियो का अधिक संवर्धन होगा।

श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने कहा कि को-लेंडिंग एक अवधारणा के रूप में तेजी से विस्तार ले रहा है और यह एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह के परिदृश्य को नए आयाम देगा। यह सेवारहित और कम सेवा वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ाने और अंतिम लाभार्थी को वहनीय लागत पर निधियां उपलब्ध कराने का एक सशक्त माध्यम बन गया है।

श्री ए. बी. विजयकुमार, कार्यपालक निदेशक ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र फिन-टेक कंपनियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा विश्वास है कि ऐसी तकनीकक्षम साझेदारी उपयुक्त लागत पर एमएसएमई को ऋण सुविधा सुनिश्चित करते हुए हमारे ऋण पोर्टफोलियो की सतत वृद्धि का पथ प्रशस्त करेगा। बैंक निर्बाध ऋण सुपुर्दगी के लिए अपने डिजिटल चैनलों को गति देने के लिए प्रयासरत है।

एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामित गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है, जिसका देश भर में शाखा नेटवर्क है और बेहतर ग्राहक आधार का ट्रैक रिकॉर्ड है।